TAVERNIER RESOURCES LIMITED

REGISTERED OFFICE: PLOT NO- 42 CTS NO 1(PT), VILLAGE DEONAR, NEAR MAHESH PHARMA, ANCILLARY IND ESTATE, GOVANDI MUMBAI 400043

CIN: L51909MH1994PLC193901

Date: July 12, 2024

To,

BSE Limited

Listing Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 531190

Subject: Post Offer Advertisement for Open Offer for the acquisition of up to 15.54.540 Equity Shares of the face value of Rs. 10/- each for cash at a price of Rs. 16.50 per Equity Share representing 26% of the Equity Share Capital of the Target Company from the Public Shareholders of Tavernier Resources Limited ("Target Company") by Amit Vedawala ("Acquirer") ("Offer" or "Open Offer").

Dear Sir(s)/ Madam(s),

With reference to the above mentioned subject, please find enclosed a copy of Post Offer Advertisement dated July 12, 2024 ("Post-Offer Advertisement") as received from Vivro Financial Services Private Limited, the Manager to the Offer, which was published on July 12, 2024, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Navshakti (Marathi).

We wish to take the above on record, and have attached a copy of the Post-Offer Advertisement with this letter.

Thanking You.

Yours Faithfully,

For and on behalf of TAVERNIER RESOURCES LIMITED

Sudhir Milapchand Naheta Managing Director DIN: 00297863

Encl: As above



Vivro Financial Services Private Limited

Regd. Office:

Vivro House, 11, Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Center, Paldi, Ahmedabad, Gujarat, India - 380 007

Tel.: + 91 (79) 4040 4242

www.vivro.net

Date: July 12, 2024

To,
The Board of Directors,
Tavernier Resources Limited
Plot No- 42 CTS No 1(Pt), Village Deonar,
Near Mahesh Pharma, Ancillary Ind Estate,
Govandi, Mumbai City, Mumbai - 400043,
Maharashtra, India

Sub: Submission of Post-offer Advertisement pursuant to the provisions of Regulation 18(12) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI SAST Regulations").

Ref.: Open Offer for the acquisition of up to 15,54,540 Equity Shares of Tavernier Resources Limited ("Target Company") at an Offer Price of ₹ 16.50 /- per Equity Share by Amit Vedawala ("Acquirer") ("Offer" or "Open Offer").

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, the Post-Offer Advertisement is published today i.e. on Friday, July 12, 2024, pursuant to Regulation 18(12) of SEBI SAST Regulations, in the following newspaper:

S. No.	Newspaper	Language	Edition
1,	Financial Express	English	All
2.	Jansatta	Hindi	All
3.	Navshakti	Marathi	Mumbai

Please find enclosed a copy of the Post-offer Advertisement published for your reference and records. Request you to disseminate the said information on your website.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For, Vivro Financial Services Private Limited

Vivek Vaishnav

Director

DIN: 00925446

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

TAVERNIER RESOURCES LIMITED

Registered Office: Plot No- 42 CTS No 1 (Pt), Village Deonar, Near Mahesh Pharma, Ancillary Ind Estate, Govandi, Mumbai City, Mumbai - 400043, Maharashtra, India | CIN: L51909MH1994PLC193901

Tel. No: +91-8879382912 | Email: tavernier.resources@gmail.com | Website: www.tavernier.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 15,54,540 (FIFTEEN LAKHS FIFTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED (THE "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY AMIT VEDAWALA ("ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION 3(1) AND 4 OF THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited, ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Navshakti (Marathi) (Mumbai Edition) ("Newspapers") on Friday, March 1, 2024. The Pre-Offer Advertisement was published on June 13, 2024, in the same newspapers.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated June 5, 2024.

Sr. No.	Particulars	Details
1.	Name of the Target Company:	Tavernier Resources Limited
2.	Name of the Acquirer:	Amit Vedawala
3.	Name of the Manager to the Offer:	Vivro Financial Services Private Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime India Private Limited
5.	Offer Details	
	a. Date of Opening of the Offer	Friday, June 14, 2024
	b. Date of Closure of the Offer	Friday, June 28, 2024
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, July 10, 2024

7. Details of Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in the Offer)		Actu	ıals
7.1	Offer Price	16	3.50	16.	50
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	15,5	4,540	20	0
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	15,5	4,540	20	0
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	2,56,	49,910	3,3	00
7.5	Shareholding of the Acquirer and PAC before Agreements / Public Announcement				
	Number of Equity Shares				
	a. Acquirer		Vil	N	il
	b. PACs	Not Ap	plicable	Not App	licable
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	1	Vil	N	il
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement dated February 23, 2024				
	Number	33,15,916		33,15,916	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	55.46		55.46	
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer				
	Number of Equity Shares acquired	15,5	4,540	200	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	2	26	0.003	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement				
	Number of shares acquired		Vil	Nil	
	Price of the shares acquired	l .	Vil	Nil	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	I	Vil	Nil	
7.9	Post offer shareholding of Acquirer and PAC				
	Number of Equity Shares				
	a. Acquirer		0,456	33,16	,
	b. PACs	Not Ap	plicable	Not App	olicable
	% of Fully Diluted Equity Share Capital				
	a. Acquirer b. PACs		.46	55.	
7.10			plicable	Not App	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer
<u> </u>	Number Number	Nil Nil	48,70,456	Nil Nil	33,16,116
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	IVII	81.46	INII	55.46

- The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for obligations under the SEBI (SAST) Regulations.
- A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com and Manager to the Offer at www.vivro.net.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

VIVRO

Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India. | CIN: U67120GJ1996PTC029182 | Tel. No.: 079-4040 4242

Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net | Contact Person: Shivam Patel SEBI Registration No.: MB/INM000010122

Date: July 11, 2024 Place: New Jersey, USA. Sd/-Amit Vedawala Acquirer

WIDE RANGE OF MODELS EXPECTED

Indkal Tech inks deal with Acer to make & design smartphones

Devices to be priced between ₹15,000 and ₹50,000

FE BUREAU New Delhi, July 11

CONSUMER ELECTRONICS COMPANY Indkal Technologies has signed a trademark licensing agreement with Acer to design, manufacture and distribute smartphones under the Acer brand in India.

The smartphones will be priced between between ₹15,000 and 50,000.

In 2009, Acer first launched its smartphones in India. In 2016, the company also started assembling smartphones at its facility in Puducherry.

However, the company did not get good traction amid competition from Chinese smartphone companies at that time.

In fact, Acer sold only 30,000 smartphone units in India in 2016, compared to over a million by Xiaomi.

"Acer smartphones are something we have been working on for a couple of years. With Acer smartphones, we are certain that Indian consumers are in for a treat," said Anand Dubey, chief executive officer of Indkal Technologies.

LOCAL PUSH

Acer-Indkal smartphones to be available on both online platforms and offline retail stores



in India ■ In 2016, it also started assembling

■ In 2009, Acer first

launched its

smartphones

smartphones locally ■ It did not get good

> ■ Acer sold only 0.000

smartphone units in 2016, compared to over a million by Xiaomi

"Our customers will experi-1987, the Acer brand mission ence exceptionally wellhas always been to break barridesigned smartphones with ers between people and techhigh end processors, top notch nology. We are excited that Indkal Technologies will furcamera technology and a host ther this mission in India by of premium features across the range,"Dubey said, adding that providing a wide range of all Acer-branded smartphones smartphones under the Acer will be designed and manufacbrand that expand end user choices and enrich their expetured in India. Once launched, Acer rience in the India market,"

smartphones will be available

for purchase through both e-

commerce platforms and

country.

NATIONAL COMMODITY CLEARING LIMITED CIN: U74992MH2006PLC163550

Reg. office: Ackruti Corporate Park, 1st Floor, L.B.S. Road, Kanjurmarg (West), Mumbai - 400 078

Ph: 91 22 6280 4900 | Fax: 91 22 6280 4901 | Email: contactus@nccl.co.in | Website: http://www.nccl.co.i

NOTICE OF 18TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Eighteenth Annual General Meeting ('AGM') of

National Commodity Clearing Limited ('the Company') will be held on Monday,

August 5, 2024 at 10.00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other

Audio- Visual Means ('OVAM') to transact the business, as set out in the Notice

of AGM dated July 11, 2024. Pursuant to the circulars issued by the Ministry of

Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, AGM will be held

In terms of said circulars, the AGM Notice along with the Annual Report for

Financial Year 2023-24 have been sent in electronic mode to all the members on

July 11, 2024 at their email addresses registered with the Company. The AGM

Notice and Annual Report are also available on the website of the Company

http://www.nccl.co.in. The instructions for attending the AGM are provided in the

The documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM

For National Commodity Clearing Limited

Rahul Poojari

Company Secretary

shall be available for inspection upto the date of the meeting.

Place: Mumbai

Date: July 11, 2024

offline retail stores across the In the personal computer segment, Acer has a 12% mar-"Since its establishment in ket share in India, as per IDC.

Incorporated.

said Jade Zhou, VP of Global

Strategic Alliances at Acer

will be set out in the Notice of AGM.

the AGM.

Demat

Holding

follow below instructions:

Client Id to the Company at investorrelations@britindia.com.

cast their votes on all resolutions as set out in the Notice convening the AGM.

signature for their corresponding folio numbers.

Company ('KFin') at einward.ris@kfintech.com

entitlement of the shareholders to the final dividend for the financial year 2023-24.

not updated, shall be eligible:

www.britannia.co.in

Record date i.e., Monday, 5 August 2024.

₹25,000-cr bank loan fraud ED arrests

Amtek Auto promoter

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 11

THE ENFORCEMENT DIREC-TORATE (ED) on Thursday said it has arrested the director of an insolvent automotive equipment manufacturing company as part of a money laundering probe linked to an alleged ₹25,000-crore bank loan fraud case. Arvind Dham, the promoter and one of the directors of the Amtek Group, was taken into custody on Tuesday (July 9), it said in a statement.

A special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court in Delhi sent him to a seven-day ED custody after he was produced before it on Wednesday. The money laundering case against the company and its directors stems from an FIR that was registered by CBI on written complaints from IDBI Bank and Bank of Maharashtra, the ED said.

It was alleged that loans were diverted through cheating, fraud and criminal breach of trust, causing a wrongful loss of worth ₹673.35 crore to the banks, the agency said.

The Supreme Court in February, while deciding a public interest petition against the Amtek Auto group of companies, directed the ED to probe the case. The agency conducted raids last month at the premises of Dham, another company director Gautam Malhotra and others in Delhi-NCR, Mumbai

BRITANNIA

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED

(Corporate Identification Number: L15412WB1918PLC002964)

Registered Office: 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 017

Phone: 033-22872439/2057

Website: www.britannia.co.in Email ld: investorrelations@britindia.com

INFORMATION REGARDING THE 105TH ANNUAL GENERAL MEETING

OF THE COMPANY

Members are requested to kindly note that the 105th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will

be held on Monday, 12 August 2024 at 3:30 P.M. IST through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual

Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), Rules

made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations, 2015') read with the General Circular No(s).

14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 20/2020 dated 5 May 2020 and 09/2023 dated 25

September 2023 ('MCA Circulars') issued by the Ministry of Corporate Affairs, to transact the business that

Pursuant to MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7

October 2023 ('SEBI Circular'), Notice convening the 105th AGM along with the Annual Report for FY

2023-24 will be sent only through Email to those Members whose Email addresses are registered with the

Company/Depository Participant(s). Members desirous of obtaining the physical copy of the Notice of the

105th AGM and the Annual Report for FY 2023-24, may send request mentioning their Folio No./DP Id and

Members may note that the Notice convening the AGM and Annual Report for FY 2023-24 will also be

available on the Company's website at www.britannia.co.in, websites of the Stock exchanges i.e., BSE

Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com

respectively and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only.

The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice convening the AGM. Members attending

the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section

The Company is providing remote E-voting facility and E-voting facility during the AGM to all its Members to

Detailed instructions pertaining to (a) remote E-voting prior to the AGM, (b) E-voting on the day of the AGM

and (c) attending the AGM through VC/OAVM mode will be provided in the notes to the Notice convening

In case you have not registered your email address and/or not updated your bank account mandate, please

Pursuant to Master Circular dated 7 May 2024 and Circular dated 10 June 2024 issued by

SEBI, it shall be mandatory for all holders of physical securities to furnish PAN, Contact

details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and specimen

Shareholders of such folios wherein any one of the above mentioned document/details are

To lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN and

For any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such

Members are requested to register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other

relevant forms duly filled along with self-attested supporting documents and other relevant

forms with M/s. KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the

Members holding shares in Demat mode are requested to register/update their Email

address/Bank Account details as per the process advised by the depository participant(s).

Final dividend as recommended by the Board of Directors at their Meeting held on 3 May 2024, if declared

at the Meeting, will be paid within the time prescribed under law i.e., on or before 10 September 2024, to

those Members whose names appear on the Register of Members/Register of Beneficial Owners as on the

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 6

August 2024 to Monday, 12 August 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining the

Members may note that pursuant to the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020 ('the

Income Tax Act'), dividend income will be taxable in the hands of the Members, the Company is required to

deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates at the time of making the payment of dividend to the

Members. The tax deduction rate would vary depending on the residential status of the Member and the

In this regard, a separate Email communication was sent to the shareholders on 9 July 2024 informing the

exemptions as enumerated in the Income Tax Act, subject to the submission of necessary documents.

Members regarding the procedure to avail the applicable tax rate as per the Income Tax Act.

folios, only through electronic mode with effect from 1 April 2024.

Members may download the prescribed forms from the Company's website at



A special PMLA court in Delhi has sent Arvind Dham, the promoter and one of the directors of the Amtek Group, to a seven-day ED custody

and Nagpur. It said the Amtek group defaulted on loans taken from more than 15 banks.

Amtek group companies like ARG,ACIL,AmtekAuto,Metallic Forging and Castex Technologies along with other group firms were taken to insolvency, the resolution of which has led to a huge haircut of more than 80% for the banks, causing substantial loss to the financial system, the agency said.

Dham, it alleged, was the "beneficial owner" of several benami properties in various companies, with employees of the group like peons, drivers, field boys and persons with "no linkage" to the group companies, acting as directors.

PepsiCo logs double-digit volume growth in India

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 11

GLOBAL FOOD AND BEVER-AGES major PepsiCo on Thurs-

day reported a double-digit growth in beverages volume in India in the second quarter of the 2024 calendar year, thereby leading to a 2% overall rise in the Africa, Middle East & South Asia (AMESA) region. It also said its convenient foods unit volume grew double-digit in India in the April-June period.

Further, the company said its convenient foods unit volume grew 1% in AMESA in the quarter, primarily reflecting doubledigit growth in India and lowsingle digit growth in South



PepsiCo saw a 2% overall rise in the Africa, Middle East & South Asia region

Africa, partially offset by a double-digit decline in the West Asia and a low-single digit decline in Pakistan. "For Q2, developing and emerging markets such as Egypt and Poland each delivered

double-digit organic revenue growth, India and Brazil saw high-single-digit growth, Thailand and Pakistan delivered mid-single-digit growth while Mexico and South Africa delivered low-single-digit growth,"it said in its earnings statement. International developed

markets such as Australia and the UK each delivered low-single-digit organic revenue growth, it added. "Year-to-date, we held orgained savoury snack share in China, India, Brazil, Australia, and Pakistan, and for beverages, we held or gained share in Australia, South Korea, China Thailand, Pakistan, Egypt, Vietnam, Saudi Arabia, the UK and Brazil," the company added.

(IR) Ingersoll Rand

INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED CIN: L05190KA1921PLC036321

Regd. Office: First Floor, Subramanya Arcade, No.12/1, Bannerghatta Road, Bengaluru – 560 029. Telephone: +91 80 4685 5100 Fax: +91 80 4169 4399; Website: www.irco.com

NOTICE

(For transfer of Unclaimed Dividend & Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account)

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("The Rules"), Equity Shares of the Company in respect of which dividend amounts have remained unclaimed for seven consecutive years or more are required to be transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

In compliance with the Rules, the individual notices were sent to all concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF. The list of the concerned shareholders is available on the Company's website i.e. https://www.irco.com/en-in/invest under "Investors Reports" section. In this connection, please note the following.

 The shares held in physical form: duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s), which stand registered in your names, will stand automatically cancelled.

The shares held in electronic form: your demat account will be debited for the shares liable to be transferred by way of corporate action and will be transferred to IEPF.

Accordingly, the Company would be transferring the equity shares and unpaid/unclaimed dividend as below:

Sr. No.	Dividend	Date of Declaration	Due Date for Transfer to IEPF	Last Date for Payment to Investors	
1	Final Dividend 2016-17	August 3, 2017	September 7, 2024	August 10, 2024	

The Company will proceed to transfer the Equity Shares along with unpaid/unclaimed dividend to IEPF without

any further notice. Please note that the concerned shareholders can claim both, the unclaimed dividend amount and the shares from the IEPF Authority by making an application in the prescribed e-Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company), along with requisite documents to the Nodal Officer of Company for the review and issuing verification report. Please also note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

In case of any queries, the concerned shareholders may contact our Share Transfer Agents viz. Link Intime India Private Limited, Unit: Ingersoll-Rand (India) Limited, C-101, 1st Floor, 247, Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083. Email: csg-unit@linkintime.co.in: Phone: +91 810811 8484 Fax: 022 6656 8494.

Place: Bengaluru Date: July 11, 2024

P. R. SHUBHAKAR Chief Financial Officer & Company Secretary

For INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

TAVERNIER RESOURCES LIMITED Registered Office: Plot No- 42 CTS No 1(Pt), Village Deonar, Near Mahesh Pharma, Ancillary Ind Estate, Govandi, Mumbai

City, Mumbai - 400043, Maharashtra, India | CIN: L51909MH1994PLC193901 Tel. No: +91-8879382912 | Email: tavernier.resources@gmail.com | Website: www.tavernier.com OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 15,54,540 (FIFTEEN LAKHS FIFTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY)

FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED (THE "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY AMIT VEDAWALA ("ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION 3(1) AND 4 OF THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER" OR "OPEN OFFER"). This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited,

("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Navshakti (Marathi) (Mumbai Edition) ("Newspapers") on Friday, March 1, 2024. The Pre-Offer Advertisement was published on June 13, 2024, in the same newspapers. Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms

in the Letter of Offer dated June 5, 2024.

Sr. No.	Particulars	Details	
10	Name of the Target Company:	Tavernier Resources Limited	
2.	Name of the Acquirer:	Amit Vedawala	
3.	Name of the Manager to the Offer:	Vivro Financial Services Private Limited	
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime India Private Limited	
5.	Offer Details a. Date of Opening of the Offer b. Date of Closure of the Offer	Friday, June 14, 2024 Friday, June 28, 2024	
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, July 10, 2024	

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in the Offer)		Acti	ıals
7.1	Offer Price	16.50	10	16.	50
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	15,54,54	10	20	00
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	15,54,54	10	20	0
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	2,56,49,9	10	3,3	00
7.5	Shareholding of the Acquirer and PAC before Agreements / Public Announcement Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs % of Fully Diluted Equity Share Capital	Nil Not Applica Nil	able	Nil Not Applicable Nil	
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement dated February 23, 2024 Number Number Grant Fully Diluted Equity Share Capital	33,15,916 55.46		33,15 55.	5,916 46
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer Number of Equity Shares acquired Kof Fully Diluted Equity Share Capital	15,54,540 26		20	177
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement Number of shares acquired Price of the shares acquired Mof Fully Diluted Equity Share Capital	Nii Nii		Nil Nil Nil	
7.9	Post offer shareholding of Acquirer and PAC Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs Mof Fully Diluted Equity Share Capital a. Acquirer b. PACs	48,70,456 Not Applicable 81,46 Not Applicable		7.1.2.40m/s016	olicable 46
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public		Post Offer	Pre Offer	Post Offe
	Number	Nil	48,70,456	Nil	33,16,116

 % of Fully Diluted Equity Share Capital 55.46 8. The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for obligations under the SEBI (SAST) Regulations.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in. BSE Limited at www.bseindia.com and Manager to the Offer at www.vivro.net.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India. | CIN: U67120GJ1996PTC029182 | Tel. No.: 079- 4040 4242 Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net | Contact Person: Shivam Patel SEBI Registration No.: MB/INM000010122

Amit Vedawala Acquirer

Date: July 11, 2024 Place: New Jersey, USA.

(ACS: 23117) TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED

Corporate Identity Number: L51909DL1987PLC027186 Regd Off.: Tinna House, No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Tel No.: 011-49518530, Fax: 011-26807073 Email: investor@tinna.in, Website: www.tinna.in

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 37 th Annual General Meeting ("37th AGM") of the members of Tinna Rubber and Infrastructure Limited, ("the Company") will be held on Friday, August 2, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the ordinary and special business(es) as stated in the Notice of 37th AGM pursuant to the Companies Act, 2013 and various circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, from time to time. All the Members are hereby informed that: -The Annual Report along with Notice of the 37th AGM for financial year ended March

31, 2024 and remote e-voting and e-voting at AGM details have been sent in electronic mode on July 11, 2024 to all the members whose e-mail are registered with RTA and Depositories as on July 05, 2024. The Annual Report along with Notice of 37th AGM is also available on the website of the company, www.tinna.in, website of Stock Exchange, BSE Limited ("BSE") www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com 2. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI

(LODR) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 27, 2024 to August 2, 2024 (both days inclusive) for taking on record the members of the Company for the purpose of 37th AGM of the Company and for final dividend.

3. Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility for the 37th AGM to the members holding shares either in physical form or dematerialized form to cast their vote on the business (es) as set forth in the Notice of the 37th AGM.

4. The Cut-off date for the purpose of e-voting through electronic voting system of National Securities Depository Limited is Friday, July 26, 2024. The remote e-voting period commences on Tuesday, July 30, 2024 from 09:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, August 1, 2024 at 05:00 p.m. (IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Thursday, August 1, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

5. Mr. Ajay Baroota, FCS No. 3495, COP No. 3945, Proprietor, M/s Ajay Baroota and Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting/remote e-voting process in respect of items of business to be transacted at the 37th AGM, in a fair and transparent manner. The result of e-voting shall be declared within the stipulated time under applicable laws. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.tinna.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and communicated to the Stock Exchange at www.bseindia.com.

6. In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but on or before the cut-off date i.e. July 26, 2024, may write an email to evoting@nsdl.co.in for obtaining login ID and password. Further, if the Member is already registered with NSDL remote e-voting platform, then he can use existing User

ID and Password for casting the vote through remote e-voting. The manner of e-voting remotely for members holding shares in dematerialized form. physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of 37th AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to 37th AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.

8. Members are requested to read the instructions pertaining to joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting, e-voting during AGM and attending AGM through VC/OVAM as printed in the Notice of 37th AGM, carefully

In case of any queries with respect to remote e-voting or e-voting at the 37th AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and the e-voting user manual for shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll-free no : 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at pallavid@nsdl.com or at NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013

Date: July 12, 2024

For Tinna Rubber and Infrastructure Limited

Sanjay Kumar Rawat Company Secretary and Compliance Officer ICSI M. No. ACS 23729

Date: 11 July 2024 Place: Bengaluru

T. V. Thulsidass Company Secretary

financialexp.epapr.in

For Britannia Industries Limited



अल्पकालीन ई-निविदा सुचना अधोहस्ताक्षरी द्वारा वृत्त कार्यालय के पत्रांक 832/जे-08/41 दिनांक ११.07.2024 के माध्यम से अल्पकालीन ई–निविदा सूचना आमंत्रित की गयी है। ई-निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाईट

http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

(एम०एच० इकबाल) अधीक्षण अभियन्ता

ट्रकैप फाइनांस लिमिटेड

(पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. विदित) पंजीकृत कार्यालयः रजिस्ट्रार ऑफिस, उरा तल, ए विंग, डी.जे. हाउस, ओल्ड नागर दास रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069, महाराष्ट्र GST No: 27AAACD9887D1ZC Corporate Identity Number: L24231MH1994PLC334457

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सुचित किया जाता है कि 29 जुलाई, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा. में नोएडा सेक.-18 में ट़कैप फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. विदित) द्वारा गिरवी रखी गई स्वर्णाभूषणों की नीलामी की जाएगी।

शाखा का पताः ट्रकैप फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. विदित), नोएडा सेक.-18, 1ला तल, ऑफिस नं. 102, विशाल चैम्बर, सेक-18, नोएडा-201301 नीलामी की जाने वाली स्वर्णाभूषण हमारे ऐसे विभिन्न ग्राहकों की ऋण खाता से संबंधित है जो अपनी बकायों का भुगतान करने में विफल रहे हैं। नीलामी की हमारी सूचनाएं इन ऋणधारकों की विधिवत रूप से जारी कर दी

नीलामी की जाने वाली स्वर्णाभूषण हमारे ऐसे विभिन्न ग्राहकों की अधिशेष ऋण खाताओं से संबंधित हैं जिनका विवरण शाखा के नाम के साथ नीचे दिया गया है

नोएडा बंघेल शाखा :GL0000000080941 (Shivalik-102742513320) त्रिनगर शाखा ; GL0000000093535 (Shivalik-102742513320)

अधिक विवरणों के लिये कृपया सम्पर्क करें: ट्रकैप फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि.

सम्पर्क व्यक्तिः सतीश कुमार

सम्पर्क नम्बरः

टुकैप फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. विदित) को कोई भी पूर्व सूचना दिये बिना नीलामी की जाने वाली खाताओं की संख्या में परिवर्तन करने एवं/नीलामी को निरस्त/स्वागित करने का अधिकार प्राप्त है।

> ट्कैप फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्ष फिनवेस्ट लि. विदित)

सुराज्य सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बेसमेंट, प्लॉट नंबर ६५, सेक्टर-१२ए, दवारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली - १९००७८ फोन : ९१-९७१८९१११६६, ईमेल: business@ easygov.co.in वेबसाइट: www.easygov.co.in सीआईएन: U72300DL2015PLC280416

प्रपत्र सं. आईएनसी-२६

[कंपनी (निगमन) नियम, २०१४ के नियम ३० के अनुसरण में] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने के बारेमें है।

> उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम २०९३ की धारा ९३ की उपधारा (४) और कंपनी (निगमन) नियम २०१४ के

केंद्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक.

नियम ३० (५) (ए) के मामले में

सुराज्य सर्विसेज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय, बेसमेंट, प्लॉट नंबर ६५, सेक्टर-१२ए, द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली - १९००७८ में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी

इसके द्वारा आम जनता को 'सचना दी जाती है कि आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "गुजरात राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए २ जुलाई, २०२४ को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के संगम ज्ञापन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो एमसीए-२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपन्न दाखिल करके शिकायत दर्ज कर सकता है या उनकी आपत्तियां एक शपथ पत्र के साथ जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, बी-२ विंग, दसरी मंजिल, पंहित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - ११०००३ पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे। बेसमेंट, प्लॉट नंबर ६५, सेक्टर-१२ए, द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली - ११००७८।

आवेदक कंपनी के लिए और उनकी ओर से

दिनांकः १९ जुलाई, २०२४ स्थान : नई दिल्ली

अमित शुक्ला पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन: ०७५६५२५५

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED Corporate Identity Number: L51909DL1987PLC027186 Repd Off.: Tinna House, No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Tel No.: 011-49518530, Fax: 011-26807073

Email: investor@tinna.in, Website: www.tinna.in 37वीं वार्षिक आम बैठक और रिमोट

ई—वोटिंग जानकारी की सूचना एतदद्वारा सचित किया जाता है कि टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड. ("दि कंपनी") के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक ("37वीं एजीएम") शूक्रवार, 2 अगस्त, 2024 को मध्या. 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी / ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 37वीं एजीएम की सूचना में बताए अनुसार साधारण और विशेष व्यवसाय(यों) को करने के लिए और समय–समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में संपन्न की जायेगी। अतएव सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि :-

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 37वीं एजीएम की सूचना और रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट 11 जुलाई, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल 05 जुलाई, 2024 तक आरटीए और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। 37वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.tinna.in, स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, हम एतदद्वारा आपको सूचित करते हैं कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक कंपनी की 37वीं एजीएम और अंतिम लाभांश के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों को रिकॉर्ड में लेने के लिए 27 जुलाई, 2024 से 2 अगस्त, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, जिसे विधिवत संशोधित किया गया है, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, जिसे समय—समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसरण में, कंपनी 37वीं एजीएम के लिए भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को 37वीं एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट डालने के लिए दरस्थ ई-वोटिंग स्विधा प्रदान करके संतुष्ट है।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग के उद्देश्य से कट—ऑफ तिथि शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 है। रिमोट ई—वोटिंग अवधि मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को सबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शरू होगी और गरुवार, 1 अगस्त, 2024 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। गुरुवार, 1 अगस्त, 2024 को सायं 05:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य

को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री अजय बरूटा, एफसीएस नंबर 3495, सीओपी नंबर 3945, प्रोपराइटर, मैसर्स अजय बरूटा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली को 37वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के मदों के संबंध में ई-वोटिंग / रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है। ई-वोटिंग का परिणाम लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किया जाएगा। स्क्रुटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.tinna.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर डाले जाएंगे

और स्टॉक एक्सचेंज को www.bseindia.com पर संस्वित किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद लेकिन कट—ऑफ तिथि यानी 26 जूलाई, 2024 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर एक ईमेल लिख सकता है। इसके अलावा, यदि सदस्य पहले से ही एनएसडीएल रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकत है, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट

डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

दिनांक : 12 जुलाई, 2024

स्थान : नई दिल्ली

डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यें के लिए रिमोट से ई-वोटिंग की प्रविधि 37वीं एजीएम की सूचना में प्रस्तुत की गयी है। जिन सदस्यों ने 37वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। 3. सदस्यों से अनुरोध है कि वे 37वीं एजीएम की सूचना में मुद्रितानुसार एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि, एजीएम के दौरान ई—वोटिंग और वीसी / ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

रिमोट ई–वोटिंग या 37वीं एजीएम में ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में. आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पृछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल-फ्री नंबरः 022- 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को pallavid@nsdl.com पर या एनएसडीएल, चतुर्थ तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई -400013 पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हस्ता./-संजय कुमार रावत

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

आईसीएसआई एम. नं. एसीएस 23729

फॉर्म सं0. आईएनसी-26 केन्द्रीय सरकार के समझ क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपवारा (4) और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के छपनियम (5) के खंड (ए) के मामलें में

बीएसजे फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः एवआर-18/19. एफ/एफ शर्मा मार्केट पुल प्रहलादपुर, गई दिल्ली-110044 के मामलें मे

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूवित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "सत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनीज अधिनियम् 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 08.07.2024 की आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक वं पारित विशेष प्रस्तान के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली के खंड ॥ (रिश्रति खंड) में परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संमावना है तो यह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपत्रपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस शूर्वना के प्रकाशन की विध्य से मोदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक के पते क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा पलोर, पं. दीनदयाल अत्योदय भवन, दूसरा पलोर, सीजीओं कॉम्पलेंक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सुचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के उपयुंजत पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी बाहिए।

कृते बीएलजे कार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/-(क्रपाली जैन) निदेशक विकि: 12.07.2024 DIN: 02923369

केन्द्र सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के समक्ष

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2019 के नियम 17 के मामले में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13 (3) के मामले में

न्युस्क्वॉयर होम्स एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय, 305ए/78, गुरु अमर दास भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110019 में है, के

मामले में

आवेदक सूचना एतद्द्वारा सर्व-साधारण को दी जाती है कि "दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश" राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की अनुमित प्राप्त करने के लिये सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के अंतर्गत यह एलएलपी कम्पनी रजिस्टर, दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करता है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक एसएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

> कत्ते. न्यस्क्वॉयर होम्स एलएलपी रजनी कान्त मिश्रा

तिथि: 11.07-2024 (DPIN: 03116578). स्थानः मुम्बई पदनामित पार्टनर

प्रपत्रा संख्या आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रा के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अनुसार मेसर्स एमएमए डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय DCG2-0715,

भारत, 122001, में है के मामले में एतद्वारा आम जनता को सूचित दिया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'आरओसी दिल्ली" से "आरओसी बैंगलोर" में उसके पंजीकृत कार्यालय को दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 08 जलाई. 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12, 13(4) के तहत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

युनिट नंबर 0715 टावर-2, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स, सेक्टर 74.-A, गुडगांव, हरियाणा,

किसी व्यक्ति का हित प्रस्तावित परिर्वतन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो. के साथ अपना/अपनी आपित को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं और इसकी प्रति अवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते

पंजीकृत कार्यालय का पताः DCG2-0715, यूनिट नंबर 0715 टावर–2, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स, सेक्टर 74.-A, गुडगांव, हरियाणा, भारत, 122001 (वर्तमान पता) आवेदक की ओर से ओर उसके लिए

सार्वजनिक घोषणा

हस्ता./-चित्तेश गुप्ता डीन: 07006503

पंकज मित्तल डीन: 06892118

दिनांक: 08.07.2024 फॉर्म-ए

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन) प्रोपलारिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेत् प्रासंगिक विवरण क्रोपोरेट ऋणी का नाम प्रोपलारिटी इंफ्रास्ट्क्बर प्राइवेट लिमिटेड कॉपोरेट ऋगी के गडन की विधि 01/03/2013 प्रधिकरण जिसके अधीन कॉपोरेट ऋणी गठित/ कंपनी रजिस्हार, दिल्ली कॉपीरेट पड़चान संख्या / कॉपीरेट देनदार को U70109DL2013PTC248914 सीमित देवता परचान सं कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा बी-238, द्वितीय तल नीर्थ एक्स मॉल, यूवी दिल्ली, प्रशांत विहार, प्रवान कार्यालय (पदि कोई) का पता दिल्ली, भारत, 110085 कीपीरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ | 03.07.2024 (हालींकि आदेश की प्रति आईआरपी की 09.07.2024 को प्राप्त हुई। विवासियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की 30.12.2024 अनुमानित तारीख अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल श्री विनोद कुमार चौरसिया IBB//IPA-001/IP-P00100/2017-18/10200 पता और पंतीकरण क्रमांक अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल ए-756, सेक्टर-2, रोडिमी, नई विस्ती- 110085 पता जो समिति के पास पंजीकृत हो ईमेलः cavinodchaurasia@gmail.com 10. अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के थी-22, प्रगति विद्यार तीस्टल, लोगी रोड. लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल | नई दिल्ली - 110003 इंपेलः cirp.proplarity@gmail.com 11. दावों के निवेदन की अंतिम तिथि 23.07.2024

12 | यारा 21 के उपवास (6ए) के लंड (वी) के तहत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आवटी लेनदारों की कथाएं, यदि कोई हों, अंलरिम संबरच पेशेवर द्वारा निधारित 13. विवातियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में 1. पीपूप मूना लेनवारी के अधिकत प्रतिनिधि के एए में कार्य (IBBI/IPA-001/IP-P00990/2017-18/11630) करने के लिए पहचाने जाले हैं (प्रत्येक वर्ग के 2. सुओं वर्षाता जैन IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-2018/10926) 3. प्रयम कमार विश्नोई (IBBI/IPA-002/IP-N00040/2016-2017/10079) 14. (क) प्रासिंगक फार्म और वेस सिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (स) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां मीतिक पताः उपरोक्त प्रविध्य सं. 10 के अनुसार आईआरपी कार्यालय

इसके हारा सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने CP (IB) 183(PB)/2024 में 03.07.2024 (आदेश की प्रति 09.07.2024 की प्राप्त हुई। की प्रोपलारिटी इंग्रस्टक्कर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉपॉरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आर्देश दिया है। **प्रोपलारिटी इंफास्ट्रक्बर प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों को 23.07.2024 को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तृत करने के लिए कहा जाता है, जो प्रविद्धि नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेयर को देना है।

विक्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉलिक साथनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचातन लेनदारों को पोस्ट हारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यमी हारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबत जमा कर सकते हैं। प्रविष्टि नं. 12 के खिलाफ सुवीबद्ध वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार, फार्म सीए में अधिकत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविध्ति न. 13 के खिलाफ सुचीबन्न तीन दिवालिया पेशेवरों में से एक अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद दावे के झूटे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा।

दिनांक: 11.07.2024 विनोद कुमार चौरसिया अंतरिम समाचान पेशेवर

IBBI पंजीकरण सं. - IBBI/IPA-001/IP-P00100/2017-18/10200 एएफए वैधना 16.10.2024 तक

SMFG

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) Grihashakti निगमित कार्यालय : 503 एवं 504, 5वां तल, जी–ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई–400051

पंजीकृत कार्यालय : मेघ टॉवर्स, तृतीय तल, पुरानी सं. 307, नई सं. 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई – 600 095

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)] जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड), एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख्राष्ट्रीय आवासन बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्णेतः स्वामित्वकृत), (यहां इसमें इसके उपरांत ''एसएमएचएफसी'' के रूप में संदर्भित). के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित निम्नांकित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें आप ऋणकर्ताओं (नाम नीचे वर्णित हैं) को उक्त सूचना में अंकित राशि तथा राशि पर नियत ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभूगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं को और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पिठत जेंक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकितानुसार एक राशि तथा इस राशि नियत ब्याज हेतु ''एसएमएचएफसी'' के प्रभाराधीन होगा।

स्थानः नई दिल्ली

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम, एलएएन	प्रतिभूत परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	लैनः— ६१०९३९५११२६४६९९ १. अंजनि कुमार सिंघल, पुत्र श्री नारायण अग्रवाल २. श्रीमती श्वेता सिंघल	प्लॉट संख्या ई–59 और 60, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, आईआईडीसी चंदौली, मौजा– जाफरपुर, तहसील– पद्दू नगर, जिला चंदौली, जो इस प्रकार घिरा है:– पूर्व– प्लॉट संख्या ई–60, पश्चिम– प्लॉट संख्या ई–58, उत्तर– 24 मीटर चौड़ी सड़क संख्या–2, दक्षिण– प्लॉट संख्या सी–35 और सी–36	21—मार्च–24 रु. 62,14,054 / — (रुपये बासठ लाख चौदह हजार चौव्वन मात्र) 15.03.2024 के अनुसार	10.07.2024
2.	लैन:— 610907210552353 1. स्वर्गीय काशी नाथ पांडे (कानूनी वारिसों के माध्यम से) 2. अमिता पांडे	अरजी नं. 375, मवका— कंडवा, परगना— देहात अमानत, तहसील एवं जिला वाराणसी— 221005	21—मार्च–24 रु. 22,39,584 / – (रुपये बाईस लाख उनतालिस हजार पांच सौ चौरासी मात्र) 15.03. 2024 के अनुसार	10.07.2024
3.	लैनः— 610939511272215 और 610939511452735, 1. अभिषेक जायसवाल पुत्र श्री कपूर चंद जायसवाल 2. वर्षा जायसवाल	मकान संख्या एस.9/68— 2—के, अरजी संख्या 1165 पर निर्मित, क्षेत्रफल 3189 वर्ग फुट अर्थात् 296.37 वर्ग मीटर, जो मोहल्ला / मौजा खजुरिया परगना शिवपुर वार्ड सिकरौल तहसील सदर जिला वाराणसी में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है:— पूर्व:— गली 10 फुट चौड़ी, पश्चिम:— सड़क, उत्तर:— बद्रीनाथ और शांति देवी का घर, दक्षिण:— बद्रीनाथ की खुली भूमि।	19—अप्रैल—24 रु. 43,69,045 / — (रुपये तैंतालीस लाख उनहत्तर हजार पैंतालीस मात्र) 18.04. 2024 के अनुसार	10.07.2024
4.	लैनः—610939211228663 1. रीता लालचंद मौर्य 2. अभिषेक मौर्य पुत्र लालचंद्र मौर्य	अरजी संख्या 420 क्षेत्रफल 1631 वर्ग फुट, अर्थात् 151.60 वर्ग मीटर, जो मौजा पंडितपूत परगना, देहात अमंत तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित है।	25—नव.—23 रु. 28,45,889 / — (रुपये अट्ठाईस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ नवासी मात्र) 17.11.2023 के अनुसार	10.07.2024

प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड स्थान : चंदौली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) दिनांक : 10-07-2024



दिनांकः **11.07.2024**.

स्थानः नई दिल्ली

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (सीआईएन: U74899DL1991PLC046774) पंजीकृत कार्यालयः 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 , निगम कार्यालयः ९. सामदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 ईमेलः investors@herofincorp.com, दूरभाषः 011-49487150, फैक्सः 011-49487197-98, वेबसाइट: www .herofincorp.com

(कंपनी के इक्विटी शैयरधारकों के ध्यानार्थ)

विषयः कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि) में हस्तांतरण

यह नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(5) और धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियमन 2016 (आईईपीएफ नियम) के साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी और उसके बाद के संशोधन के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

तदनुसार, सभी अंतर्निहित इक्विटी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 (अंतिम लाभांश) से लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने प्रत्येक शेयरधारक(ओं) को व्यक्तिगत संचार भी भेजा है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं। दावा न किए गए/गैर भृगतान लाभांश और हस्तांतरित किए जाने योग्य संबंधित शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट यानी www.herofincorp.com पर "निवेशक" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

शेयरधारक(ओं) जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी डीमैट रूप में रूपांतरण और आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा खोले गए डीमैट खाते में बाद में स्थानांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले में डप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। ऐसे जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे और गैर–परक्राम्य माने जाएंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक(ओं) के मामले में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का हस्तांतरण कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जाएगा। आईईपीएफ नियमों के अनुसार, सभी अंतर्निहित शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों तक दावा न किया गया / गैर भूगतान रहा है, उन्हें

अंतिम तिथि यानी २९ अक्टूबर, २०२४ के बाद निर्धारित समयसीमा के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उपरोक्त के मद्देनजर, ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त वर्ष 2016–17 के लिए गैर भुगतान लाभांश (अंतिम) का दावा करने के लिए 15 अक्टबर, 2024 तक कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट (संपर्क विवरण इस नोटिस के अंतिम पैरा में दिए गए हैं) को आवेदन करें। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को उपरोक्त तारीख तक कोई दावा/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी और नोटिस के अंतर्निहित शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य होगी। शेयरधारक ध्यान दें कि गैर भुगतान/दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ बैंक/डीमैट खाते में स्थानांतरित किए गए शेयर, ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, का दावा आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किया जा सकता है। गैर भूगतान/दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, श्री नवीन चंद से मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच २,सी–1 ब्लॉक एलएससी,सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, फोनः +91 11 49411000, ईमेल आईडीः iepf.shares@ linkintime.co.in में संपर्क करें।

> बोर्ड के आदेश से हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के लिए

हस्ता /-शिवेंद्र सुमन प्रमुख-अनुपालन और कंपनी सचिव

SWADESHI INDUSTRIES AND LEASING LIMITED

Registered Office: Shop 117, 1" Floor, V Mall, Thakur Complex, Western Express Highway, Kandivali East, Mumbai, Maharashtra, India, 400101; Phone No. +91- 9326321829; Email id: compliance@swadeshiglobal.com; swadeshiindltd@gmail.com; Website: www.swadeshiglobal.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of Swadeshi Industrie And Leasing Limited ("Swadeshi" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations")

Date	11.07.2024
Name of the Target Company	Swadeshi Industries And Leasing Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer to acquire up to 28,12,667 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company, to be acquired by the Acquirer, at a price of Rs 2.00/- per Equity share payable in cash in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
Name(s) of the Acquirer	Jayshree Radheshyam Sharma
Name of the Manager to the offer	Navigant Corporate Advisors Limited
Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	harrier Martin and Artin and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a
	IDC Members are the Independent Directors of the Target Company. Neither Chairman nor Member of IDC holds any equity shares in the Target Company. None of them have entered into any other contract or have other relationship with the Target Company.
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	No trading has been done by the IDC Members in the equity shares, other securities of the Target Company.
	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirer.
Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable
그렇게 하면 되었다. 내용 이 없는 것이 되었다면 하게 하면 하는 것이 되었다면 하는데	The IDC Members believes that the Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
Summary of reasons for recommendation	 IDC recommends acceptance of the Open offer made by the Acquirer as the Offer price of Rs. 2/- per fully paid- up equity share is fair and reasonable based on the following reasons: The Offer price appears to be reasonable considering market prices of Target Company. The offer price of Rs. 2/- per fully paid- up equity share offered by the Acquirers is equal to the price paid by Acquirer in Share Purchase Agreement to Sellers. The equity shares of the Target Company are frequently traded shares within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The offer price of Rs. 2/- per fully paid- up equity share offered by the Acquirer is higher than the volume-weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement. Keeping in view above facts IDC is of opinion that Open Offer price is fair and reasonable and is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement. is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and

None

No

For Swadeshi Industries And Leasing Limited

Nitinkumar Radheshyam Sharma Chairman-Committee of Independent Directors

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

TAVERNIER RESOURCES LIMITED

Registered Office: Plot No- 42 CTS No 1 (Pt), Village Deonar, Near Mahesh Pharma, Ancillary Ind Estate, Govandi, Mumbai City, Mumbai - 400043, Maharashtra, India | CIN: L51909MH1994PLC193901 Tel. No: +91-8879382912 | Email: tavernier.resources@gmail.com | Website: www.tavernier.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 15,54,540 (FIFTEEN LAKHS FIFTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED (THE "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY AMIT VEDAWALA ("ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION 3(1) AND 4 OF THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER" OR "OPEN OFFER"). This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited,

("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Navshakti (Marathi) (Mumbai Edition) ("Newspapers") on Friday, March 1, 2024. The Pre-Offer Advertisement was published on June 13, 2024, in the same newspapers. Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms

in the Letter of Offer dated June 5, 2024.

Sr. No.	Particulars	Details	
10	Name of the Target Company:	Tavernier Resources Limited	
2.	Name of the Acquirer:	Amit Vedawala	
3.	Name of the Manager to the Offer:	Vivro Financial Services Private Limited	
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime India Private Limited	
5.	Offer Details a. Date of Opening of the Offer b. Date of Closure of the Offer	Friday, June 14, 2024 Friday, June 28, 2024	
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, July 10, 2024	

Details of Independent Advisors, if any

Any other matter to be highlighted

Place: Mumbai

Date: 11.07.2024

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in the Offer)		Acti	ials
7.1	Offer Price	16	5.50	16.	50
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	15,5	4,540	20	00
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	15,5	4,540	20	00
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	2,56,	49,910	3,3	00
7.5	Shareholding of the Acquirer and PAC before Agreements / Public Announcement • Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs • % of Fully Diluted Equity Share Capital	Nill Not Applicable Nil		Nil Not Applicable Nil	
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement dated February 23, 2024 Number Word Fully Diluted Equity Share Capital	33,15,916 55,46		33,15,916 55.46	
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer Number of Equity Shares acquired Nof Fully Diluted Equity Share Capital	15,54,540 26		20	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement Number of shares acquired Price of the shares acquired Mof Fully Diluted Equity Share Capital		Nil Nil Nil		
7.9	Post ofter shareholding of Acquirer and PAC Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs Mof Fully Diluted Equity Share Capital a. Acquirer b. PACs	Not Ap	0,456 pplicable 1,46 pplicable	33,16 Not App 55. Not App	olicable 46
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer
	Number	Nil	48,70,456	Nil	33,16,116
11	% of Fully Diluted Equity Share Capital	Nil	81.46	Nil	55.46

obligations under the SEBI (SAST) Regulations. 9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

www.bseindia.com and Manager to the Offer at www.vivro.net. ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India. | CIN: U67120GJ1996PTC029182 | Tel. No.: 079- 4040 4242 Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net | Contact Person: Shivam Patel SEBI Registration No.: MB/INM000010122

Date: July 11, 2024 Place: New Jersey, USA. Amit Vedawala Acquirer

E- TENDER 2nd CALL NOTICE

Rs. 1,00,00,000/-

MSETCL invites online bids (E-Tender) from registered contractors agencies on Mahatransco E-

l	Tende	ring website <u>http</u>	s://srmetender.mahatransco.in/	llowing works
	Sr. No.	RFX No.	E-Tender No. & Description of Material	Due date & Time (Hrs.) for submission & Opening of Tender
	1	7000031930	SE/EHV/O&M/CIR/KLW/TECH/ Ten-25(2 nd call)/24-25	Tender Downloading Dates & time. Tender Sale period.
		internal inspection of TF/ ICT and attending oil leakage through HV & LV Bushing with oil filtration at various substation under EHV (O&M) Circle, Kalwa for the F.Y.	internal inspection of TF/ ICT and attending oil leakage through HV & LV Bushing with oil filtration at	1 10111 Dt. 12:07:2024, 00:00 1110 to Dt.
				Technical Opening: - Dt. 19.07.2024 at 10: 00 Hrs (Onwards if possible)
			Commercial Opening: - Dt. 19.07.2024 at 15:00 Hrs (Onwards if possible)	
۱			Tender Fee	Rs. 500 + GST

Contact Person Executive Engineer/ Dy. Exe. Engineer (O) Tel No. 9769006245 / 7506379055

Estimated Cost

SUPERINTENDING ENGINEER Note: All eligible Supplier / Contractors are mandated to get enrolled on SRM E-Tenders (New) portal of



सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.

वसुली विभाग : ७४-सी, समाधान बिल्डिंग, २ रा मजला, सेनापती बापट मार्ग, (तुलसी पाईप रोड), दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०००२८ द्रध्वनी क्र. : ८६५७०४३७१३/१४.

ई-लिलाव विक्री सूचना

(लिलाव विक्री / बोली फक्त वेबसाईट https://eauction.auctiontiger.net मार्फत करण्यात येईल.)

जंगम मत्तेच्या विक्रीकरिता विक्री सूचना म्हणजेच खालील नमुद तपशिल दिलेल्या वाहनाची विक्री सर्वसामान्य जनता आणि विशेषतः कर्जदार आणि हमीदार यांना सूचना याद्वारे देण्यात येते की, खालील वर्णिलेल्या जंगम मत्ता म्हणजेच जंगमगहाण वाहन सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. कडे गहाण/प्रभारित आहे, ज्याचा प्रत्यक्ष कब्जा बँकेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे, ते खालील विनिर्देशानुसार ''जे आहे जेथे आहे तत्त्वाने'', ''जे आहे जसे आहे तत्त्वाने'' आणि ''कोणत्याही मदतीशिवाय'' विकण्यात येणार आहे

अ.	. कर्जदार,	वाहनाचे वर्णन	।. राखीव किंमत	निरिक्षणाची	इअर आणि	ई-लिलावाची
क्र.	. सह-कर्जदार,		II. इअर	तारीख आणि	केवायसी सादर	तारीख आणि
	हमीदार/जंगम		III. बोली वाढविण्याची	वेळ	करण्याची	वेळ
	गहाणवटदार,		रक्कम		अंतिम तारीख	
	कायदेशीर वारस				आणि वेळ	
	(लागू असल्यास)					
	यांचे नाव					
8	कर्जदार :	जंगमगहाण वाहन-	रू. ८.०० लाख	07.0८.२०२४	१२.०८.२०२४	१४.०८.२०२४
	श्री. मनोज उल्हास	मारूती सुझुकी एक्सएल६ स्मार्ट	रू. ०.८० लाख	दु. २.०० ते	दु. ४.०० पर्यंत	दु. २.०० ते
	डुंबरे	हायब्रीड ॲट अल्फा	रू. ०.१० लाख	दु. ४.००		दु. ४.००
		(एमएच-०३-डीजी-७५५८)				
2	कर्जदार :	जंगमगहाण वाहन-	रू. ७.५० लाख	07.02.7078	98.02.7078	96.02.7078
	श्री. मनोज उल्हास	मारूती सुझुकी एक्सएल६ स्मार्ट	रू. ०.७५ लाख	द. २.०० ते	दु. ४.०० पर्यंत	दु. २.०० ते
	डुंबरे	हायब्रीड ॲट झेटा	रू. ०.१० लाख	द. ४.००	3	द. ४.००
	,	(एमएच-०३-डीजी-७५७४)		,		,
\vdash						

निरिक्षणाच्या ठिकाणाच्या तपशिलाकरिता कृपया येथे संपर्क करावा: ८६५७०४३७१३/१४. * यशस्वी बोलीदारांनी पढील कामकाजा दिवसाँअगोदर २५% अंतिम बोली रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे

लिलाव हा बँकेचे मान्यताप्राप्त सेवा पुरवठादार **मे. ई-प्रॉक्युरमेंट टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड (ऑक्शन टायगर)** मार्फत करण्यात येईल. बोली प्रपत्र, सदर विक्री/लिलावाच्या अटी व शर्ती व बोली / प्रस्ताव जमा करण्याची पद्धत https:/eauction.auctiontiger.net या त्यांच्या वेबसाईटवर

कर्जदार/हमीदारांना विक्री सूचना

कर्जदार/हमीदार यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, ते विक्री करण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी थकबाकी/परिव्यय/प्रभार आणि खर्च चुकता करुन तारण विमोचित करण्यासाठी हक्कदार आहेत, कसूर केल्यास वाहनाचा लिलाव/विक्री करण्यात येईल आणि उर्वरित थकबाकी काही असल्यास व्याज आणि परिव्ययासह वसुल करण्यात येईल.

प्राधिकत स्वाक्षरीकर्ता दिनांक : १२.०७.२०२४ (टीप: स्वैर भाषांतर तफावत आढळल्यास मूळ इंग्रजी ग्राह्य) सारस्वत को-ऑप. बँक लि. ठिकाण : मुंबई

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

TAVERNIER RESOURCES LIMITED

Registered Office: Plot No- 42 CTS No 1(Pt), Village Deonar, Near Mahesh Pharma, Ancillary Ind Estate, Govandi, Mumbai City, Mumbai - 400043, Maharashtra, India | CIN: L51909MH1994PLC193901

Tel. No: +91-8879382912 | Email: tavernier.resources@gmail.com | Website: www.tavernier.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 15.54.540 (FIFTEEN LAKHS FIFTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED (THE "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY AMIT VEDAWALA ("ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION 3(1) AND 4 OF THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Navshakti (Marathi) (Mumbai Edition) ("Newspapers") on Friday, March 1, 2024. The Pre-Offer Advertisement was published on June 13, 2024, in the same newspapers

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated June 5, 2024.

Sr. No.	Particulars Particulars	Details	
1.	Name of the Target Company: Tavernier Resources Limited		
2.	2. Name of the Acquirer: Amit Vedawala		
3.	3. Name of the Manager to the Offer: Vivro Financial Services Private Limited		
4.	Name of the Registrar to the Offer: Link Intime India Private Limited		
	5. Offer Details		
	a. Date of Opening of the Offer	Friday, June 14, 2024	
	b. Date of Closure of the Offer	Friday, June 28, 2024	
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, July 10, 2024	

7. Details of Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in the Offer)		Actuals	
7.1	Offer Price	16	5.50	16.50	
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	15,5	4,540	200	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	15,5	4,540	200	
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	2,56,4	49,910	3,300	
7.5	Shareholding of the Acquirer and PAC before Agreements / Public Announcement				
	 Number of Equity Shares 				
	a. Acquirer	1	Vil	N	ii
	b. PACs	Not Applicable Not Appl		licable	
	 % of Fully Diluted Equity Share Capital 	Nil		Nil	
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement dated February 23, 2024				
	Number	33,15,916		33,15,916	
	 % of Fully Diluted Equity Share Capital 	55.46		55.46	
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer				
	 Number of Equity Shares acquired 	15,54,540		200	
	 % of Fully Diluted Equity Share Capital 	26		0.003	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement				
	 Number of shares acquired 	Nil		Nil	
	 Price of the shares acquired 	Nil		Nil	
	 % of Fully Diluted Equity Share Capital 	Nil		Nil	
7.9	Post offer shareholding of Acquirer and PAC				
	Number of Equity Shares				l
	a. Acquirer	48,70,456		33,16,116	
	b. PACs	Not Applicable		Not Applicable	
	 % of Fully Diluted Equity Share Capital 	81.46 Not Applicable			
	a. Acquirer			55.46	
	b. PACs			Not Applicable	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer
	• Number	Nil	48,70,456	Nil	33,16,116
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	Nil	81.46	Nil	55.46

8. The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for obligations under the SEBI (SAST) Regulations.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at

www.bseindia.com and Manager to the Offer at www.vivro.net. ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007 Gujarat. India. | CIN: U67120GJ1996PTC029182 | Tel. No.: 079- 4040 4242 Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net | Contact Person: Shivam Patel

SEBI Registration No.: MB/INM000010122 Date: July 11. 2024 Amit Vedawala Place: New Jersey, USA Acquirer विशेष वसुली आणि विक्री अधिकारी मुंबई जिल्हा को. ऑप. हौसिंग फेंडरेशन लिमिटेड याच्याशी सलग्न १०३ विकास प्रिमा, ११ जी. एन वैद्य मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ दूरध्वनी क्र. ०२२-२२८४०१३४/०२२-२२६६००६८ 🚄 ताबा सूचना 🖣

स्थावर मालमत्तेसाठी ताबा सूचना

(म.स.सं. नियम १९६१ चा नियम १०७ उपनियम (११ (डी – १) पहा) ज्याप्रमाणे निम्नस्वाक्षरीकार हे विशेष वसूली आणि विक्री अधिकारी मुंबई जिल्हा को. ऑप. हौ. फेडरेशन लिमिटेड यांच्याशी संलग्न आहेत, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ च्या अतर्गत आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था मुंबई विभाग (१) यांच्याकडुन प्राप्त झालेल्या अधिकारांस अनुसरुन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अंतर्गत व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०७ सह यांनी मागणी सूचना संदर्भ बीओएम े एमडीसीएचएफ / एसआरओ / २५६८बी/२०२३ दिनांक २९-०३-२०२३ निर्गमित केली होती आणि थकबाकीदार **श्रीमती हसा पटेल**, याना वरील सूचनेत नमूद केलेली एकूण रक्कम रु २,०७,७६७ /— (रुपये दोन लाख सात हजार सातशे सदुसष्ठ फक्त) अधिक त्यासह त्यात नमूद केल्यानुसार विहीत दराने व्याज सदरील सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसात अदा करण्याची सूचना केली होती. थकबाकीदार यांनी सूचनेत नमूद केलेल्या रक्कमेचा भरणों करण्यांत कसूर केली असल्याने

त्याची स्थावर मालमत्ता सदनिका क्रमाक—अे—०२/सी हे जप्ती आदेश बजावून जप्त केली. त्यामुळे याद्वारे थकबाकीदार आणि आम जनता यांना सूचित करण्यांत येते की, निम्नस्वाक्षरीकार यानी खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या मालमत्तेचा ताबा कलम १५६ अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १०७ अनसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा अवलंब करून घेतला आहे.

थकबाकीदार आणि आम जनता यांना यादारे सावधगिरीचा डशारा देण्यात येतो की त्यांनी सदरील मालमत्तेच्या संदर्भात कोणताही व्यवहार करु नये आणि सदरील मालमत्तेच्या संदर्भात कृणीही कोणताही व्यवहार केल्यास तो निशिता को. ऑप. हौ. सो. लि., डहाणुकरवाडी, एम.जी. रोड, कांदिवली— (पश्चिम), मुंबई — ४०० ०६७, यांच्या रक्कम रु ६,४९,२३९ /— (रुपये सहा लाख एकोणपन्नास हजार दोनशे एकोणचाळीस फक्त) अधिक त्यासह त्यात नमूद केल्यानुसार विहीत दराने व्याज इतक्या भारास पात्र असेल.

<u>मालमत्तेचे वर्णन</u> सदनिका क्रमांक ओ— ०२/सी, निशिता को. ऑप. हौ. सो. लि., डहाणूकरवाडी, एम. जी. रोड, कांदिवली– (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०६७.

श्रीमती माधवी बी. जगताप विशेष वसुली आणि विकी अधिकारी दि मुंबई जिल्हा को ऑप हौसिंग फेंडरेशन लिमिटेड

दिनांकः १२/०७/२०२४ मुंबई येथील न्यायव्यवस्थेच्या ठिकाणः मुंबई मृत्यपत्रित आणि विना मृत्युपत्रित

मौजे नारींगी ता तसर्व जि पालघर येशील स

स.नं. २२९/अ/४. क्षेत्र ३—३०—०० आर.चै स.न. २२९/अ/४, क्षेत्र ३—३०—०० आर.चो. मी., स.नं. २२९/अ/२१, क्षेत्र २—००—०० आर.चो.मी., स.नं. २२९/अ/२२, क्षेत्र २—००—०० आर.चौ.मी., स.नं. २२९/अ/२३, क्षेत्र ३—३०—०० आर.चो.मी.,

रानं. २२९/अ/२४, क्षेत्र १—३०—०० आर चौ.मी., स.नं. २२९/अ/२६, क्षेत्र १—५०—०० आर.चौ.मी., स.नं

२२९/अ/२९, क्षेत्र २—३०—०० आर.चौ.मी व स.नं. २२९/अ/३८, क्षेत्र १—५०—००

आर.चौ.मी. हया मिळकती श्रीमती. संगीता राजें नाईक हिचे मालकीच्या असून स.न्

२२९/२०/अ, क्षेत्र ०—००—७० हे आर.चौ मी. ही मिळकत श्री. तनमय राजेंद्र नाईक व इतर

यांचे मालकीची आहे. हया मिळकती श्रीमर्त

संगीता राजेंद्र नाईक आणि श्री. तनमय राजें

नाईक व इतर, यांनी माझे अशिलांना कायर

विकत् देण्याचे मान्य व कबुल केलेले आहे. तरी

सदरचे मिळकतीवर कोणाही व्यक्ति वा संस्थेच

कोणत्याही प्रकारचा हक्क अथवा अधिका अस्ल्यास त्यांनी सदरची नोटीस प्रसिध्

लेखी कागदोपत्री पुराव्यासहित खालील पत्त्याव

कळवावे. अन्यथा तसा कोणाचाही. कोणत्याह

प्रकारचा हक्क वा अधिकार नाही वा असल्यास् तो सोडून देण्यात आलेला आहे असे समजून

पत्ता : शॉप नं. २,३ व ४ क्लेमेंट रेसिडेन्सी, स्टेला पेट्रोल पंपसमो

अधिकारिता याचिका क्र. ९५४ सन २०२४

प्रतिभा प्रेमानंद फडते ऊर्फ प्रतिभा

प्रेमानंद फडते यांच्या विधवा, हिंदू,

भारतीय, मुंबईच्या रहीवासी, विधवा,

पेशा: गृहिणी, त्यांच्या मृत्यसमयी

राहणार - बी-३०८, ट्रॅंक्विलिटी फेज-२, शेवाळेवाडी, मंजिरी फार्म,

हवेली, पुणे-४१२३०७, ज्यांचा कायमचा पत्ता - फ्लॅट क्र.

१३२/४४३०, सुनिल को- ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि., डेअरी रोड,

नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई-४००

०२४ यांच्या अंतिम मृत्युपत्र आणि इच्छापत्राच्या मृत्युपत्रप्रमाणासाठी

अमित कुमार प्रेमानंद फडते पेशा: नोकरी, वय: ४१ वर्षे, हिंदू,)

भारतीय, पुणेचे रहिवासी, राहणार)

- बी-३०८, ट्रॅंक्विलिटी फेज-

२, शेवाळेवाडी, मंजिरी फार्म,

उपरिनामित मयताच्या अंतिम

मृत्युपत्र आणि इच्छापत्रात

व्यवस्थापक ह्या नात्याने.

१) सर्व संबंधित,

२) सुमित प्रेमानंद फडते (ठावठिकाणा माहिती नाही)

नियुक्त

पुणे-४१२३०७,)

केलेले एकमेव)

उपरिनामित मयताच्या संपत्तीमध्ये कोणतेही हितसंबंध असल्याचा तुमचा दावा असल्यास, तुम्हाला याद्वारे मृत्युपत्र प्रमाणाच्या मंजुरीपूर्वी येऊन

कार्यवाही पाहण्यासाठी प्रावाहन

मृत्युपत्र प्रमाणाच्या मंजुरीस विरोध

करण्याची तुमची इच्छा असल्यास, तुमच्यावर ह्या प्रावाहन पत्राच्या

बजावणीपासून १४ दिवसांत तुम्ही एक आपत्ती सूचना प्रोथोनोटरी आणि

सिनियर मास्टरच्या कार्यालयात दाखल

'तुम्हाला याद्वारे कळविण्यात येते की,

पात्रता निकषांप्रमाणे राज्य विधीसेवा

प्राधिकरणे. उच्च न्यायालय विधी सेवा

समित्या, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे

आणि तालका विधी सेवा समित्यांकडून

तुम्हाला विनामूल्य विधी सेवा उपलब्ध

ोक शकते आणि जर तुम्ही विनामूल्य

विधी सेवा मिळविण्यास पात्र आणि

इच्छुक असाल तर तुम्ही वरील पैकी

कोणत्याही विधी सेवा प्राधिकरण/

उपाध्याय, मुंबई येथील उपरोक्त मुख्य

न्यायाधीश, ह्या १ जुलै, २०२४ रोजी.

प्रोथोनेटरी आणि सिनियर मास्टरसाठी

सही/-

सही / -सीलर

दि. १ जुलै, २०२४

समितीशी संपर्क साधू शकता". साक्षीदार, श्री. देवेंद्र कुमार

शिरीष पी माठकर

स्वाती एस. माठकर

याचिकाकर्त्यांसाठी वकील

केली पाहीजे.

... याचिकांकर्ते

वसई रोड पश्चिम, ता. वसई

जि.पालघर — ४०१२०

ॲड. किरण परब

विक्रीचा व्यवहार पूर्ण करण्यात येईल.

दिनांक: १२.०७.२०२४

लेपासन १४ (चौदा) दिवसांचे आत सर्व त्य

१०३ विकास प्रिमा, ११ जी. एन. वैद्य मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४०० ००१.

वसुली अधिकारी यांचेसमक्ष च्या आवारात दि सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई ३७७, बदामवाडी को. ऑप. हौ. सोसा. व्ही.पी. रोड शाखा मुंबई- ४०० ००४ फोन क्र. ०२२-२३८२४५४४/०२२-२३८८३१६९

नियम १०७ चा पोटनियम ११ (डी-१) पहा)

स्थावर मिळकतीकरिता कब्जा सूचना याअर्थी निम्नस्वाक्षरीकर्ता सिटी को-ऑप बँक लि., मुंबईचे प्राधिकृत अधिकारी या नात्याने **महाराष्ट्र कं** ऑपरेटीव्ह सोसायटी नियम १९६१ च्या अंतर्गत ०६ मार्च. २०२४ दिनांकीत जप्तीच्या आदेशानसार जारी करून न्यायनिर्णित कर्जदार आणि हमीदार **सौ. दिप्ती रोहित बोधे आणि कर्जदार श्री. रोहीत राजन बोधे** यांस सूचनेत नमूद केलेली रक्कम रु. ३०,१९,२०४.१८ (रूपये तीस लाख एकोणीस हजार दोनशे चार आणि अठरा पैसे मात्र) (२८.०२.२०२४ पर्यंत व्याज) आणि व्याज आणि सदर सूचना प्राप्तीच्या तारखेपासून वसुलीपर्यंत त्यावरील इतर प्रभार सदर सूचना प्राप्तीच्या तारखेस करण्यासाठी बोलविण्यात येत आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणको सदर रकमेची परतफेड करण्यास कसरवार ठरल्याने निम्नस्वाक्षरीकारांनी जप्ती करीता आणि खालील वर्णन केलेल्य मिळकतीच्या जप्तीसाठी सचना निर्गमित केली आहे.

न्यायनिर्णित ऋणकोंनी रक्कम चुकती करण्यात कसुर केल्यामुळे विशेषत: न्यायनिर्णित ऋणको आणि सर्वसामान जनतेला सचना याद्वारे देण्यात येते की. निम्नस्वाक्षरीकारांनी खालील वर्णिलेल्या सौ. दीप्ती रोहित बोधे यांच्य मालकीचे ए विंग – ३०२, तिसरा मजला श्री सिद्धेश्वर राम मंदिर संस्थानचा टॉवर, सिद्धकाली, हंस नगर गांचा खोपट, ठाणे (प) -४०० ६०२ या मिळकतीचा सांकेतिक कब्जा हा स्पेशल रिकव्हरी ऑफिसर मुंबईचे द्वारा दि सिटी क-ऑपरेटिव्ह बँक लि. मुंबई यांनी महाराष्ट्र को.ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट, १९६० च्या कलम १५६ सहवाचता महाराष्ट्र को.ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट, १९६१ च्या नियम १०७ अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराच्या सुकृताद्वारे घेतला आहे.

विजोषतः न्यायनिर्णित ऋणको आणि सर्वसामान्य जनतेला यादारे सावधान करण्यात येते की, त्यांर्न मिळकतीच्या देवघेवीचा **व्यवहार करु नये** आणि मिळकतीच्या देवघेवीचा व्यवहार हा **30. १९. २०४. १८** आणि २८.०२. २०२४ रोजी पासन त्यावरील पढील व्याज या रकमेसाठी **दि सिर्ट** को – ऑप. बँक लि., मुंबई च्या प्रभाराच्या अधीन राहिल

स्थावर मिळकतीचे वर्णन

श्री सिद्धेश्वर राम मंदिर संस्थानचा टॉवर, सिद्धकाली, ए विंग-३०२ ३रा मजला, हंस नगर,

खोपट, ठाणे (प)-४०० ६०२

स्पेशल रिकव्हरी ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑप. सोसायटीज द्वारे अधिकार दिलेले ठिकाण : मुंबई दिनांक: २२.०३.२०२४ दि सिटी को-ऑप बँक लि., मुंबई



बीएसई लिमिटेड

२५वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, ढ्लाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४००००१.

CIN No: L67120MH2005PLC155188

सार्वजनिक सूचना

एक्स्चेंजने सेबीच्या (एलओडीआर) नियमावली २०१५ च्या महत्त्वाच्या विनियमांची/ तत्कालीन नोंदणी करारनाम्याच्या कलमांची पूर्तता न करण्यासाठी ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ निलंबित करण्यात आलेल्या किंवा इतर कारणांसाठी निलंबित करण्यात आलेल्या आणि दिलेल्या कालावधीत निलंबन मागे घेण्याच्या औपचारिकता पूर्ण न केलेल्या कंपन्यांच्या सक्तीच्या विनोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

या प्रक्रियेचा भाग म्हणून एक्स्चेंजने ११ जुलै २०२४ रोजी एक्स्चेंज आणि एमसीए नोंदींनुसार (जिथे वेगळे आहेत तिथे) त्यांच्या अंतिम ज्ञात पत्त्यावर पत्र पाठवले होते आणि सदर कंपन्यांना विनोंदणी समितीसमोर वैयक्तिक सुनावणीची संधी घेण्याचे आवाहन केले होते.

कंपन्यांचे तपशील आणि त्यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयांचे पत्ते खालीलप्रमाणे आहेतः

अनु क्र	स्क्रिप कोड	कंपनीचे नाव	एक्स्चेंजकडील नोंदींनुसार कंपनीचा पत्ता		
٩	५३१५३०	बेताला ग्लोबल सिक्युरिटीज लिमिटेड	नं. २४, रेवानियर एसटी, सोवकार्पेट, चेन्नई - ६०००७९, तामिळनाडू		
ર	५२६९२ ५	बॉबशेल इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड	८०२, "स्वगत" बिल्डिंग, लाल बंगलो जवळ, सी.जी. रोड, अहमदाबाद - ३८०००६, गुजरात		
3	480009	कॅमसन सीड्स लिमिटेड	सर्वे क्रमांक ७५ आणि १२९, मडगोंडानहल्ली गांव, मधुरे होबळी, डोड्डाबल्लापूर, बेंगळुरू - ५६१२०३, कर्नाटक		
8	५३९३३५	सीएचपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	दुकान क्रमांक १३६-१३७/ ८ आणि ९, तिसरा मजला, एम्पायर स्कूवाइर, बाबेन, तालुका - बार्डोली, सुरत - ३९४६०२, गुजरात		
ч	५०६५८०	पीबी ग्लोबल लिमिटेड	एस व्ही रोड, चितळसर मानपाडा, ठाणे - ४००६०७, महाराष्ट्र		
Ę	५३०८४१	श्री भोलानाथ कार्पेट्स लिमिटेड	जी टी रोड, कछवान, वाराणसी - २२१३१३, उत्तर प्रदेश		
· O	५३९३६३	श्री कृष्णा कन्स्ट्रक्शन्स (इंडिया) लिमिटेड	नं. २२४, तिसरा मजला, एसएस कॉम्प्लेक्स, १४वा क्रॉस, सॅम्पीज रोड, मल्लेश्वरम, बेंगळुरू - ५६०००३, कर्नाटक		
۷	५३१२६२	सूर्या इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बी - ९, इंडस्ट्रियल इस्टेट, परतापूर, मेरठ - २५०१०३, उत्तर प्रदेश		
٩	५४३२२२	ट्रेकिंगटोझ डॉट कॉम लिमिटेड	२३६, टोंक रोड, महावीर नगर फर्स्ट, दुर्गापुरा, जयपूर - ३०२०१८, राजस्थान		

तसेच, उक्तनिर्देशित कंपन्यांसंदर्भात एक्स्चेंजने एक्स्चेंजच्या नोंदींमध्ये उपलब्ध असलेल्या कंपन्यांच्या नोंदणीकृत इमेल पत्त्यावर इमेलदेखील पाठवले होते. तसेच सदर पत्राच्या प्रती जोडलेले इमेल एक्स्चेंजच्या नोंदींवर उपलब्ध असलेल्या तपशिलांनुसार कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनादेखील पाठवण्यात आले होते.

उक्तनिर्देशित पार्श्वभूमीवर एक्स्चेंजकडून ही **शेवटची आणि अंतिम सूचना जारी करण्यात** येत आहे की कंपन्यांना **३० जुलै २०२४** रोजी एक्स्चेंजच्या विनोंदणी समितीच्या सभेत **वैयक्तिक सुनावणीची** सुविधा प्राप्त करायची आहे की नाही यासंदर्भात कळवण्यासाठी शेवटची आणि अंतिम सूचना देण्यात येत आहे. कृपया नोंद घ्या की कंपनीकडून दिलेल्या वेळापत्रकात आणि खाली विनिर्दिष्ट पद्धतीत कोणतीही निश्चिती न आल्यास कंपनीने सुनावणीची संधी सोडून दिली असे गृहित धरले जाईल आणि विनोंदणी समितीला एकतर्फी तत्वावर प्रकरणाचा निर्णय घेणे भाग पडेल. एक्स्चेंज सेबी समभागांची विनोंदणी विनियमाच्या तरतुदींनुसार सक्तीच्या विनोंदणीची प्रक्रिया पार पाडेल.

उक्तनिर्देशित कंपन्यांनी **१५ जुलै २०२४** पर्यंत या इमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा: <u>bse.delistscn@bseindia.com</u> या सूचनेत नमूद कंपन्यांना विनिर्दिष्ट पद्भतीत दिलेल्या कालावधीत प्रतिसाद देण्यात अपयश आल्यास या कंपनीने वैयक्तिक सुनावणीची आपली आवश्यकता सोडून दिली असे गृहित धरले जाईल आणि **एक्स्चेंज सेबी (समभागांची विनोंदणी) विनियमच्या तरतुदींअंतर्गत कंपन्यांच्या सक्तीच्या** विनोंदणीची प्रक्रिया सुरू करेल.

> बीएसई लिमिटेडसाठी आणि वतीने १२ जुलै २०२४

Format C-1

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate **Amit Ganapat Gorkhe**

Flat No. 13, Prabhu Chamber Kalbhornagar

Chinchwad, Pune-411019

Name of political party **Bharatiya Janata Party**

Name of Election Bienniel Election to Legislative Council - 2024

Name of Constituency From Members of Maharashtra Legislative Assembly

I Amit Ganapat Gorkhe, (name of candidate), a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending Criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	_	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)	
1.	NIL	NIL	NIL	NIL	

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court and date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment imposed	
1.	N.A.	N.A.	N.A.	

(Amit Ganapat Gorkhe)

Name & Signature of Candidate